

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE: 321, S.M. LODHA COMPLEX, SHASTRI CIRCLE, UDAIPUR 313001 (RAJASTHAN) PHONE: 0294-2561882, 2412609, E-MAIL: srghousing@gmail.com, info@srghousing.com CIN NO.: L65922RJ1999PLC015440 WEBSITE: www.srghousing.com

TW 140.. 2339164

April 12, 2023

To, BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement published with regards to Notice of Postal Ballot

Pursuant to captioned subject and Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") please find enclosed, copies of the newspaper advertisements published in Financial Express- New Delhi Edition (English) and Business Remedies (Hindi).

Please take note of the same.

Thanking You,

With Regards

For SRG Housing Finance Limited

UDAIPUR

Divya Kothari Company Secretary

M No:- A57307

Enclosed - a/a



Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at:- "Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi" under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform

Borrower(s)/Co- Borrower(s)/Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession	Reserve Price	Date of Inspection of property
Mr. Virendra Singh Mrs. Bharti Devi	26-Apr-2022 Rs. 25,51,639/- (Rupees	All that part and parcel of the property bearing 3rd Floor(i.e. H.	Total Outstanding As	Rs. 27,03,000/- (Rupees Twenty	12-May-2023 1100 hrs -1400 hr
(Prospect No.		Fifty One Thousand Six Hundred Thirty Nine Only) Sid Increase Amount Rs. 40,000/- (Rupees Forty Thousand Only) On Plot bearing Pvt. No. 3, Rs. 29,0 (Rupees Tv. 58.52 Sq. Mtrs., Khasra No. Lakh Two Seven Hur Village Sant Nagar, Burari, North Delhi, Delhi, India-110059	And in contrast of the last of	Seven Lakh Three Thousand Only)	EMD Last Date
IL10018666)	Six Hundred Thirty		Rs. 29,02,755/- (Rupees Twenty Nine Lakh Two Thousand	Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 2,70,300/- (Rupees Two Lakh	15-May-2023 till 5 pm.
	Bid Increase Amount Rs. 40,000/- (Rupees Forty Thousand Only)		Seven Hundred Fifty Five Only)		Date/Time of E Aucti 17-May-2023 1100 hrs1300 hr
Mr. Akash Nagar Mrs. Monika	Monika 24,49,146/- (Rupees propert No. Twenty Four Lakh 31 Forty Nine Thousand One Hundred Forty Six Only) UBid Increase Amount	All that part and parcel of the	Total Outstanding As On Date 03-Apr-2023	Rs. 22,62,000/- (Rupees Twenty Two	12-May-2023 1100 hrs -1400 hr
(Prospect No. IL10100360)		3Rd Floor, admeasuring Carpet area 478 sq. ft., Kh. No. 67/14, Om Vihar Phase-IV, Nawada Road, Uttam Nagar, West Delhi-110059		Lakh Sixty Two Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD)	EMD Last Date 15-May-2023 till 5 pm.
		IN THE PARTY OF TH	Thousand One Hundred Seven Only)	Rs. 2,26,200/- (Rupee Two Lakh Twenty Six Thousand Two Hundred Only)	17-May-2023 1100 hrs1300 hr

pay through link available for the property only. Note:: Payment link for each property is different. Ensure you are using link of the property you intend to buy vide public auction.

For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001.

Terms and Conditions:-

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes

balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the

of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, efectricity charges, land

and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.

For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.

For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email: - auction.hl@iifl.com.

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.

Further the notice is hereby given to the Borrower's, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place : Delhi, Date : 12/04/2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.



(a) pnb Housing

Dated: 06.04.2023

FEDBANK

Whereas

Regd. Office:- 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22, K G Marg, New Delhi-110001. Phones: - 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com

Above Allahabad Bank, Sector-21 C, Faridabad, Haryana – 121003

Finance Limited PUSSESSIUN NUTICE (FUR IMMUVABLE PROPERTY/IES)

Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notice/s on the date mentioned against each account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd.

	The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.					
S	L Loan Account Number	Name of Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor(s)	Date of Demand Notice	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description of the Property/ies Mortgaged
1	120/831473 B.O:.	Mrs. Jyoti wife of late Sh. Shyam Lal and to all Legal Heirs of Late Sh. Shyam Lal		Rs. 64,15,577.71 (Rupees Sixty Four Lakhs Fifteen Thousand Five Hundred Seventy Seven and Seventy One Paisa Only) as on 22.11.2022	(Symbolic	Housing Society Ltd, Plot No Gh 03, Sector 48, Faridabad-121001
\vdash	Place · Farida	had				Authorized Officer

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. Having corporate office at Kanakia Wall Street,

A-Wing, 5th Floor, Unit No.501, 502, 511, 512 Andheri - Kurla Road, Chakala, Andheri East, Mumbai, Maharshtra - 400093

POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of Fedbank Financial Services Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financia Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) reac with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated January 16, 2023 calling upon the Borrowe Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor:- (1) Ratan Dhaba (Borrower); (2) Mr. Vikas Kumar (Co - Borrower); (3) Ms. Kusum (Co -Borrower); (4) Mr. Ratan Chaudhary (Co - Borrower); (5) Mr. Santram (Co - Borrower) to repay the amount mentioned in the said notice being Rs. 70,31,353/- (Rupees Seventy Lakhs Thirty One Thousand Three Hundred Fifty Three only) as on 12/01/2023 i.e. Rs. 59,41,179/- (Rupees Fifty Nine Lakhs Forty One Thousand One Hundred Seventy Nine Only) in Loan Account No. FEDDLHLAP0487719 and Rs. 10,90,174/- (Rupees Ten Lakhs Ninety Thousand One Hundred Seventy Four Only) in Loan Account No. FEDDLHLAP0487898 together with further interest thereon at the contractual rate plus all costs charges and incidental expenses etc. within 60 days from the date of receipt of the said demand notice.

The Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor mentioned hereinabove having failed to repay the above said amount within the specific period, notice is hereby given to the Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s), Guarantor and the public in general that the undersigned Authorised officer has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the SARFAESI Act read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the April 10 of the year

The Borrower, Mortgagor, Co-Borrower(s) and Guarantor mentioned hereinabove in particular and the public in general is/are hereby cautioned not to deal with the following property and any dealings with the following property will be subject to the charge of Fedbank Financial Services Ltd. for an amount Rs. 70,31,353/- (Rupees Seventy Lakhs Thirty One Thousand Three Hundred Fifty Three only) as on 12/01/2023 i.e. Rs. 59,41,179/- (Rupees Fifty Nine Lakhs Forty One Thousand One Hundred Seventy Nine Only) in Loan Account No. FEDDLHLAP0487719 and Rs. 10,90,174/- (Rupees Ten Lakhs Ninety Thousand One Hundred Seventy Four Only) in Loan Account No. FEDDLHLAP0487898 together with further interest thereon at the contractual rate plus all the costs charges and incidental expenses etc

The borrower's attention is invited to sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets **SCHEDULE I**

DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY

All the piece and parcel of two side open property No. RZ-354 Gali No. 19 consisting of Builtup Ground Floor, First Floor, Second Floor, Third Floor with Roof rights over and above measuring 100 Sq. Yds. i.e. 83.34 Sq. Mtrs. carved out of Khasra No. 411 situated at Tughlakabad Extn. New Delhi - 110019 which is bounded as under.

North Other property RZ-355/19 East South Other property

West

Date:- 12-04-2023

Place:- Delhi

Fedbank Financial Services Ltd (Authorized Officer

(M/s PNB Housing Finance Ltd.)

TATA TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Laipat

Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024. NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 28-04-2023 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E- Auction at 2.00 P.M. on the said 28-04-2023. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E- Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 27-04-2023 till 5.00 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & Admeasuring 820 Sq. Feet i.e. 76.17 Sq. Mtrs., Situated at Tower Orchid in Fragrance, Plot No. GH - 04, Sector 3, Siddhartha Vihar, 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024. The sale of the Secured Asset/ Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein

Sr. No		Name of Borrower(s) / Co-borrower(s) Legal Heir(s) / Legal	Amount as per Demand Notice	Reserve Price	Earnest Money	Type of possession	
	and Branch	Representative/ Guarantor(s)					De
1.	94170	MR. NEERAJ CHAUDHARY,	Rs.1,23,74,776/- (Rupees One	Rs.	Rs.	Physical	(U
	27	MRS.MONIACHAUDHARY SAPPHIRE DIGITAL PRINTERS	Crore Twenty Three Lakh Seventy Four Thousand Seven Hundred Seventy Six Only) 25-09-2020	83,00,000/- (Rupees Eighty Three Lakh Only)	8,30,000/- (Rupees Eight Lakh Thirty Thousand Only)	92	12.

Description of the Immovable Property: All That Residential Property- UNIT NO. VS-8/BUNGLOW No. 2, SECOND FLOO TOWER-VS-8, SKY BUNGLOWS-GH-02-, SEC-41, FARIDABAD 121010 HARYANA, MEASURING AREA: 2060 SQ. including Balcony Area

 9417 MR. NEERAJ CHAUDHARY, Rs. 1,56,86,995/- (Rupees One Crore Rs. 8,30,000/-MRS. MONIA CHAUDHARY. Fifty Six Lakh Eighty Six Thousand 83,00,000/-(Rupees Eight

(Rupees Eighty

Lakh Thirty

267

72

Physical

1,40,000/-

(Rupees

One Lakh

Forty

Thousand

Only)

(Rupees Two

Lakh Seventy

Seven

Thousand

(Borrower) .

Mrs. DIVYA AGARWAL

Mrs. MADHUAGARWAL

PRINTERS Three Lakh Only) Thousand Only) 25-09-2020 Description of the Immovable Property: Apartment No. VS-7/ Bungalow No. 2, Tower No. VS-7, 2nd Floor, RISE SKYBUNGLOWS, GH-02-, SECTOR-41, FARIDABAD, HARYANA-121010, ADMEASURING AREA: 2300 SQ. Ft. Built up area of 2300 Sq. Ft. (including of Balcony Area).

Nine Hundred Ninety Five Only)

3. 9417 MR. NEERAJ CHAUDHARY, Rs.1,57,76,204/- (Rupees One Crore Rs. 83.00.000/-Rs. 8,30,000/-MRS. MONIA CHAUDHARY, Fifty Seven Lakh Seventy Six (Rupees Eighty (Rupees Eight Thousand Two Hundred Four Only) SAPPHIRE DIGITAL Three Lakh Lakh Thirty Thousand Only) 25-09-2020

Description of the Immovable Property: All That Residential Property- UNIT NO. VS-7/BUNGLOW No. 1, FIRST FLOOR, TOWER- 14. VS-7, RISE SKY BUNGLOWS-GH-02-, SEC-41, FARIDABAD, 121010 HARYANA, MEASURING AREA: 2300 SQ. Ft.

4.	9860 252	MR. HARBINDER SINGH ANAND, MR. AJIT KAUR	Rs. 19,658,42/- (Rupees Nineteen Lakh Sixty Five Thousand Eight Hundred Forty Two Only) 12-05-2021	Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakh Only)	Rs. 2,50,000/- (Rupees Two Lakh Fifty Thousand Only)	Physical
----	-------------	--	---	---	---	----------

	A Company of the Comp		Property: All That Residential Property- FLAT BE N.H24 GHAZIABAD-201002 MEASURING AREA 11		floor 17th Tower C	at MARIN
5.		MR. ABHIJEET DEBNATH. MRS. SHRABONI NATH	Rs. 22,76,209/- (Rupees Twenty Two Lakh Seventy Six Thousand Two Hundred Nine Only)	Developed St. Co. Co. Co. Co. Co. Co.	Rs. 2,60,000/- (Rupees Two Lakh Sixty Thousand Only)	Physica

18-06-2021

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the FLAT/APPARTMENT NO. C-1401, Admeasuring 61.55 Sq.Mt. of Carpet Area (662.52 Sq. Ft.), on the 14th Floor In TOWER - C, along with Garage/Covered Parking and Pro Rata Share in the common area in the project known as "MARINA SUITES" Situated at Plot No. GH- 3/1, PARK TOWN, N.H.24, Village - Shahpur Bamhetta, Pargana, Dasna, Teh. And Dist. Ghaziabaad, Uttar Pradesh

6.	180 & 10024	MR. NARENDER S/O MR. SHIV KUMAR (Borrower). MRS. PINKI W/O MR. NARENDRA KUMAR MISHRA (Co-borrower), MR. DHARMENDRA KUMAR MISHRA S/O SURENDRA KUMAR	Rs. 50630/- (Rupees Fifty Thousand Six Hundred Thirty Only) is due and payable by you under Agreement no. 10024156, and an amount of Rs. 2261657/- (Rupees. Twenty Two Lakh Sixty One Thousand Six Hundred Fifty Seven Only) is due and payable by you under Agreement No. 10003180 totalling to Rs. 2312287/- (Rupees Twenty Three Lakh Twelve Thousand Two Hundred Eighty Seven Only)
		MISHRA (Co-borrower),	31-08-2021

98466 Mr. GAURAV

98654 Mr. SOURAV

KUMAR

46 & KUMAR

00

SAPPHIRE DIGITAL

Thousand Six Hundred Fifty Seven Only) is due and | Lakh Only) payable by you under Agreement No. 10003180 totalling to Rs. 2312287/- (Rupees Twenty Three Lakh Twelve Thousand Two Hundred Eighty Seven Only) 31-08-2021 Description of the Immovable Property: ALL THE PIECE AND PARCEL OF FLAT BEARING NO. GF-3, ADMEASURING AREA 55.88

SQ, MTR (SUPER COVER AREA) GROUND FLOOR, BACK SIDE, LHS, "SAID FLOOR" PART OF PROPERTY NO. MM-101, PLOT ADMEASURING AREA 264 SQ.MTS DLFANKUR VIHAR SADULLABAD, LONI, GHAZIABAD U.P Bounded: - East: - PLOT NO, MM101 West:-FLAT NO. GF-4, Noeth:-STAICASE/FLAT NO. GF-1, South:-PLOT NO. C-1/17 Physical Rs. 2287582/- (Rupees Twenty Two Lakh Eighty Seven 27,75,000/-2,77,500/-Thousand Five Hundred Eighty Two Only) is due and

=		Twenty Three I	23-07-2021	Only)	55	d
			II That Residential Property- FLAT BEAF 4, GHAZIABAD(U.P) 201301 MEASURING			WER-C
8.	930 618 8	Mrs. NEELAM SINHA (Borrower) Mr. RANJAN SRIVASTAV (Co-borrower), M/s INSTAMAZE INFOTAINMENTS PRIVATE	Rs. 20,22,512/- (Rupees Twenty Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred Twelve Only)	Rs. 17,00,000/- (Rupees Seventeen	Rs. 1,70,000/- (Rupees One Lakh Seventy Thousand	Physic

payable by you under Agreement no. 9846646 and an

amount of Rs. 72461/- (Rupees Seventy Two Thousand Four

Hundred Sixty One Only) is due and payable by you under

Agreement no. 9865400 totalling to Rs. 2360043/- (Rupees

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the Unit No. R018B161201/ Flat No. 1201. (2BHK), 12TH Floor. Block- B 16, ECO Village -1, build up on Plot No. 8, Sector-1, Greater Noida (Noida Extension), Uttar Pradesh- 201301, area admeasuring 795 Sq. Feet. Superbuilt up area

Loan Name of Borrower(s) Amount as per Earnest Type of Reserve A/c. / Co-borrower(s) **Demand Notice** Price Money possession No Legal Heir(s) / Legal and Representative/ Branch Guarantor(s) 10350 MRS. NEHA Rs. 46,82,918/- (Rupees Forty Six Rs. Rs. Physical 328 SAXENA. Lakh Eighty Two Thousand Nine 26,00,000/-2,60,000/- (Rupees MR. ABHISHEK Hundred Eighteen Only) (Rupees Twenty Two Lakh Sixty SAXENA Thousand Only) Six Lakh Only) 07-06-2021

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the property Apartment No. 1801 Tower No. C, 18TH Floor, Total area 1240 Sq. Ft. (115.20 Sq. Mt.) Carpet area 662.52 Sq. Ft. (61.55 Sq. Mt.), situated at Plot No. GH-3/1, Park Town, Village Shahpur Bamhetta, Tehsil and Distt, Gaziabad, Utter Pradesh

	121	W/O MR. AJAY BHUSHAN. MR. AJAY BHUSHAN S/O MR. KAMTA PERSHAD	Twenty One Lakh Eighty Five Thousand Five Hundred Only)	Rs. 25,25,000/- (Rupees Twenty Five Lakh Twenty Five Thousand Only)	Rs. 2,52,500/- (Rupees Two Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred Only)	Physical
			perty: All that piece & parcels o	그리스 아니 아니아 아이는 아이는 아이는 아이를 하는 것이다.	선생님들이 다른 경기 때문에 가장하다 하나 사람들이 되었다.	

Ghaziabad - 201010 (Uttar Pradesh).

1.	969 128 2	MR. DHIRENDRA VERMA S/O MR. HUKUM CHAND VERMA.	Rs. 69,11,666/- (Rupees Sixty Nine Lakh Eleven Thousand Six Hundred Sixty Six Only) 19-02-2022	Rs. 32,00,000/- (Rupees Thirty Two Lakh Only)	Rs. 3,20,000/- (Rupees Three Lakh Twenty Thousand Only)	Physical
les	criptic	on of the Immovable P	roperty: All that piece & parcels of Resid	ential Unit/Apartment No	1101, 11th Floor, Type - A	Block-B

Admeasuring 1270 Sq. Feet (Super Area), Situated at JNC Greenwoods, Plot No. GH - 1, Sector - 03, Vasundhara, Ghaziabad - 201012 Uttar Pradesh)

	12.	959 and	Mrs. Rajni W/o Mr. Satish Prakash. Mr. Satish Prakash S/o Mr. Raja Ram	Rs. 10,85,459/- (Rupees Ten Lakh Eighty Five Thousand Four Hundred Fifty Nine Only) is due and payable by you under Loan Account No. 9335959 and an amount of Rs. 4,15,500/- (Rupees Four Lakh Fifteen Thousand Five	12,80,000/- (Rupees	Rs. 1,28,000/- (Rupees One Lakh	Physical
OR. Ft.		081		Hundred Only) is due and payable by you under Loan Account No. 9473081 i.e. totaling to Rs. 15,00,959/- (Rs. Fifteen Lakh Nine Hundred Fifty Nine Only)	Lakh Eighty	Twenty Eight Thousand Only)	
ical	Des	criptio	on of the Immovable P	30-05-2022 Property: All piece & parcels of Residential Open Plot bearing N	o. 40A, Admea	suirng 80 Sq. Yd	s. i.e. 66.88

Sq. Mtrs., Comprised in Khasra No. 32, Situated at M.L. Estate, Kaulakha, Tehsil & District Agra (Uttar Pradesh), with all common amenities mentioned in sale deed. Bounded :- East :- Property of Others, West :- Plot No. 40B, North :- Passage & Exit 20' Wide, South : - Plot No. 45 Mr. AYUB KHAN Rs. 19,19,087/- (Rupees Symbolic

11,40,000/- (Rupees

Rupees Seventy

Five Lakh Only)

1,14,000/- (Rupees

Seven Lakh Fifty

Thousand Only)

		07	Mrs. NISARA BEGAM (Co-borrower),	Thousand Eighty Seven Only)	Eleven Lakh Forty Thousand Only)	One Lakh Fourteen Thousand Only)		
ical	Щ.		21-1-1-1-1-1-1	30-03-2020		0000 100-35		
	100000000000000000000000000000000000000	Description of the Immovable Property: All That Residential Plot Situated at Khasra No. 301, Area Admeasuring 83.61 Sq. Mtr. i.e. 100 Sq. Yds. Situated at Village- Kanja Dass Pur, Tehsil & District Bareily, Uttar Pradesh-243001. With common amenities written in the Sale						
	Dee	ed. Bou	unded: - East: - House of F	lavi Kumar, West :- Plot Of Siraijudin,	North :- Seller property, Sc	outh:-14 feet wide road		

Nineteen Lakh Nineteen

Seven Hundred Six Only)

21-01-2020

Mr. SAURABH Rs. 88,53,706/- (Rupees Eighty 101 Rs. Rs. Physical 857 AGARWAL. Eight Lakh Fifty Three Thousand 75.00.000/-7.50,000/- (Rupees

	Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the Schedule - A Item No.1- All That Residential Apartment /Flat
	Unit bearing Flat No. 5, Situated at 3rd floor of Plot No. 188-C, Along with Car Parking Situated at Salvation Army Marg, Civil Lines,
INA	Bareilly, Uttar Pradesh-243001. Area Admeasuring 120.58 (Covered Area) Sq. Mtr. With common amenities written in the Sale Deed.
	Bounded in the Manner as Follow: North: Corridor of Flat No.04; South: Salvation Army Marg; East: Property of Surject Singh; West: Flat
cal	No. 06; Item No. 2- All That Residential Apartment /Flat Unit bearing Flat No. 6, Situated at 3rd floor of Plot No. 188-C, Along with Car
Cas	Parking Situated at Salvation Army Marg, Civil Lines, Bareilly, Uttar Pradesh-243001. Area Admeasuring 91.506 Sq. Mtr. With common

amenities written in the Sale Deed. Bounded in the Manner as Follow: North: Corridor of Flat No.3; South: Salvation Army Marg; East: Flat No. 5; West: Flat No. 01; At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and

costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:

The E-auction will take place through portal https://DisposalHub.com on 28-04-2023 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each. Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the

undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shall at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer, 2. The Immovable Property shall not be sold below the Reserve Price, 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10.000/- (Rupees Ten Thousand Only) 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 21-04-2023 between 11 AM to 5.00 PM with prior appointment, 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty. 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: as per table above. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value; as per table above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s NexXen Solutions Private Limited, Address: #203, 2nd Floor, Shree Shyam Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram - 122 006 through its Mobile No. +91 97100 29933, +91 98100 29926, Tel. No. +91 124 4 233 933, Email ID: CSD@disposalhub.com or Manish Bansal, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696. Please send your query on WhatsApp Number - 9999078669. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website https://bit.ly/3Gnn4DR for the above details. 15. Kindly also visit the link; https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

Sd/- Authorised Officer, Tata Capital Housing Finance Ltd.

HERO HOUSING FINANCE LIMITED The Street of

Regd. Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057 Phone: 011 49267000, Toll Free Number: 1800 212 8800, Email: customer.care@herohfl.com Website: www.herohousingfinance.com | CIN: U65192DL2016PLC30148 Contact Address: Building No. 27, 2nd Floor, Community Center, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi- 110057.

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"). Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Hero Housing Finance Limited (HHFL)

under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal

Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to HHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HHFL by the said Obligor(s) respectively.

oan account lo.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal	Total Outstanding Dues (Rs.) as on	Date of Demand Notic Date of NPA	
	Representative(s)	below date*		
HFDELLAP18000000089,	SANJIV DANG,	Rs. 3,74,34,029/- as	10-04-2023	
HFNSPLAP21000015375, HFNSPLAP22000029430	SUDHA DANG, SIDHARTH DANG	on date 10-04-2023	09-04-2023	

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties: Basement, Ground Floor, First Floor and Second Floor, Without Roof Rights, built on Plot No. 24, Block-19, Old Rajender Nagar, New Delhi-110060, having area measuring 88.1 sq. yds. Bounded by: North: Property No. 19/23, East: Gali, South: Road, West: Gali

with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand

mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to HHFL as aforesaid, then HHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to

transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. Date: 12 Apr-2023, Place: Delhi /NCR Sd/- Authorised Officer, For Hero Housing Finance Limited

Globe GLOBE INTERNATIONAL CARRIERS LIMITED CIN: L60232RJ2010PLC031380

Registered Office: 301 - 306, Prakash Deep Complex, Near Mayank Trade Centre, Station Road, Jaipur, Raiasthan - 302006 Email: cs@gicl.co; Contact No.: 0141-2361794, 2368794; Website: www.gicl.co

NOTICE OF POSTAL BALLOT The Members of Globe International Carriers Ltd. ("the Company") are hereby informed that pursuant to

the provisions of Section 108 and 110 of the Companies, Act. 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and in terms of Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 ted April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular no. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular no. 20/2021 dated December 8, 2021, collectively, referred to as the -MCA Circulars", the Company is seeking is seeking consent of its members for passing of special resolution by way of Postal Ballot as set out in the Postal Ballot Notice dated 10th April. 2023 ('Notice'). The Company has completed dispatch of Postal Ballot on April 11. 2023 only through electronic mode to its members whose name appeared in the register of members / register of beneficial owners as on Friday, O7th April, 2023 ("Cut Off Date) on their email ids registered with the Depositories/ Registrar and Share Transfer Agent. Due to COVID-19 Pandemic, the requirement of circulating the physical copies of Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form has been dispensed with vide relevant MCA Circulars

In view of these MCA circulars and in compliance with the provisions of Section 108 and other applicable provisions of the Act, read with the rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to the Members to exercise the right to vote by electronic means (e-voting) or by way of Physical ballot Form and the business will be transacted through e-voting platform provided by Central Depository Services Limited(CDSL). Any response received from Members after 5:00 p.m. (IST) on Friday, May 12, 2022. whether by postal ballot or by electronic means shall be treated as invalid and the voting will not be allowed beyond the said date and time. The e-voting period will commence on Thursday, 13th April, 2023 at 09.00 a.m. (IST) and will end on

Friday, 12th May, 2023 at 5.00 p.m. (1ST). The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Once the vote is cast by a Member He / She shall not be allowed to change it subsequently. The Detailed procedure / instructions for e-voting are contained in the Notice. Shareholders who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of Equity Shares held in electronic form with the depository through their depository participant(s) with

whom they are maintaining their demat accounts and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Agent Link Intime India Private Limited ("Link Intime" or "Registrar & Share Transfer Agent") having address at C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West, Mumbai 400083 MH, Tel.: (022) 4918600, Email id: ashok.sherugar@linkintime.co.in; If you have any queries or issues regarding e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under

help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members who have not received the postal ballot notice may apply to the company / M/s Link Intime India Private Limited (RTA) & obtain the same. Members may please note that the Postal Ballot Notice will

also be available on the Company's website at www.gicl.co, website of the Stock Exchange i.e. NSE Limited at www.nseindia.com and on Central Depository Services Limited at www.cdslindia.com. The Board of Directors of the Company has appointed CS Manish Sancheti, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7972 & CP No. 8997), Proprietor of M/s M Sancheti & Associates, Company Secretaries, Jaipur as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and

The results of the Postal Ballot will be announced within 48 hours from the closure of e-voting. The results, along with Scrutinizer Report will be displayed at the registered office of the Company, website of the Company i.e. www.gicl.co and on the e-voting website of CDSL i.e. www.evotingindia.com. The results will also be intimated simultaneously to the Stock Exchanges where the Company's shares are By order of the Board of Directors

For Globe International Carriers Ltd. Place: Jaipur Date: April 12, 2023

Annu Khandelwal (Company Secretary)

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

CIN: L65922RJ1999PLC015440, Regd. office: 321 S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur 313001 Rajasthan, Email: info@srghousing.com, Website: www.srghousing.com NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to the provision of section 110 and other applicable provision, if any, of the companies act, 2013 read with Rule 22 of the companies (Management and Administration) rules 2014 (the Act) Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re -enactment(s) thereto, for the time being in force and in

accordance with Guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") For Holding general meeting / conducting postal ballot process through e - voting, the approval of the member is being sought for the following resolution as mentioned in the in the Postal Ballot Notice only by way of remote electronic voting ("E-Voting") **Particulars** Type of Resolution Approval of SRG Housing Finance Limited Employees Special Stock Option Scheme - 2023.

from the 'promoter group' to the 'public' category Members are hereby informed that pursuant to the MCA Circular, the Company on April 11 2023 has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice dated, electronically to all the members, whose name appears on the Register of member/List of Beneficial own-ers maintained by the Company/Depositories as on cut -off date i.e April 7, 2023 and who have registered their e-mail addresses in respect of electronic Holding with the Depositories through their respective Depository Participants. A person who is not a Member on the cut -off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purpose only.

To approve the request for reclassification of a shareholder

The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement has been uploaded on the website of the company: www.srghousing.com and can also be accessed from the website of the stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com .The Notice is also available on the website of e-voting agency at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulation and Section 108 of the companies act 2013 read with Rule 20 of the companies (Management and Administration) Rule, 2014 as amended and the MCA circular, the company is providing Facility for voting through remote e-voting to enable its member to cast their votes electronically in respect of the Resolution as set out in this Postal Ballot Notice. For this purpose, the company has engaged the services of National Securities Depository Ltd (NSDL) and has also made necessary arrangement with its RTA to Facilitate e-voting. In terms of MCA Circulars voting can be done only by e-voting.

E-voting will commence at 09:00 am (IST) on Wednesday April 12, 2023 and ends on 05:00 pm on Thursday May 11, 2023.

The resolution under the postal Ballot notice, if passed by the member, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the company for e - voting i.e. May 11, 2023 Further, resolution passed by the member through e-voting are deemed to have been passed effectively The board of director of the company at the Board Meeting held on March 29, 2023 appointed

Mr. Shivhari Jalan, PCS as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and e-voting

process in accordance with the law and in fair and transparent manner. The results of the

postal ballot will be announced on or before May 12, 2023. The result of the Postal ballot together with the Scrutinizer's Report will be posted on the company website www.srghousing.com and will also be communicated to the BSE Limited. For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the postal ballot. In case Members have any queries /grievances or need any assistance on remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for share-holder available

at the download section of www.evoting.nsdl.com. In case of any queries, you can call NSDL on toll free no: 1800-222-990 or Contact NSDL at 022-2499454 or e-mail evoting@nsdl.co.in or Ms. Divya Kothari, Company Secretary Tel: 0294-2561882 and email info@srghousing.com at 321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur Rajasthan-313001.

For SRG Housing Finance Limited Date: 11.04.2023 (Sd/-) Divya Kothari (ACS) M.No- A57307 Place: Udaipur

financialexp.epapr.in

Place:- Delhi Date :- 12-04-2023

LTD. Co-borrower),

Lakh Only)

(Rupees

Twenty

Seven Lakh

Seventy Five

14,00,000/-

(Rupees

Fourteen

Only)

Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property. Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter.

New Delhi

Ordinary

सीवरेज, वॉटर सप्लाई सिस्टम, वॉटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसिमशन, रोड़ वर्क इत्यादि कार्य करने वाली कंपनी 'ईएमएस लि.' ने सेबी में आईपीओ के लिए दाखिल किया ड्राफ्ट



बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। नई आधारित लि. 'सरकारी संस्थाओं के लिए सीवरेज, वॉटर सप्लाई सिस्टम, वॉटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिकल ट्रांसिमशन, रोड़ वर्क इत्यादि कार्य करने वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा सेबी में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट दाखिल किया है। कंपनी द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पर्ति व अन्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड के मैनबोर्ड पर आईपीओ लाया जाएगा। आज के लेख में हम कंपनी की कारोबारी गतिविधियां, वित्तीय प्रदर्शन, प्रवर्तक अनुभव एवं आईपीओ के संबंध में जानकारी जैसे विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं।

कंपनी की कारोबारी गतिविधयांः 'ईएमएस लि.' सरकार के लिए सीवरेज समाधान प्रदाता, जल आपूर्ति प्रणाली. जल और अपशिष्ट उपचार विद्युत पारेषण और वितरण, सड़क और संबद्ध कार्यों, अपशिष्ट जल योजना परियोजनाओं (डब्ल्यूडब्ल्यूएसपी) के संचालन और रखरखाव और जल आपूर्ति योजना परियोजनाओं (डब्ल्युएसएसपी) के व्यवसाय में हैं। कंपनी कार्यों में डब्ल्युडब्ल्युएसपी में सीवेज नेटवर्क स्कीम के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), डब्ल्यएसपी में पंपिंग स्टेशनों के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यूटीपी) और पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने (सामूहिक रूप से, प्रोजेक्ट) शामिल हैं। एसटीपी और सीईटीपी में स्थापित उपचार प्रक्रिया भारत के पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के मानदंडों के अनुरूप है और उपचारित पानी का उपयोग बागवानी, धुलाई, प्रशीतन

कंपनी प्रवर्तकों का अनुभव

कंपनी के 60 वर्षीय प्रवर्तक रामवीर सिंह कंपनी के चेयरमैन भी हैं। वें योग्यता से इंजीनियर हैं। उनके पास सिविल, निर्माण उद्योग और व्यवसाय विकास में पैंतीस से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 2006 में उत्तर प्रदेश जल निगम से वीआरएस लेने के बाद साझेदारी फर्म मैसर्स सतीश कमार में शामिल हो गए और बाद में वर्ष 2010 में ईएमएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी लिमिटेड कंपनी को स्थापित किया गया। उनके नेतृत्व में 2012 के वर्ष में, साझेदारी फर्म

रामवीर सिंह मेसर्स सतीश क्रमार को ईएमएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। वें कंपनी के प्रोजेक्ट्स बिडिंग, मार्केटिंग, समग्र प्रबंधन और वित्तीय क्षेत्रों को देख रहे हैं। उनके अनुभव के तहत कंपनी ने लागत प्रभावी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उनके वृहद अनुभव ने कंपनी को बड़े स्तर पर विकसित किया है और कंपनी की बहुत प्रतिष्ठित और विश्वसनीय छवि बनाई है।



कंपनी के 34 वर्षीय प्रवर्तक आशीष तौमर कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। 21 दिसंबर, 2010 को उन्हें कंपनी के निगमन के समय कंपनी के बोर्ड में प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वें एक सिविल इंजीनियर हैं। उन्हें सीवरेज कार्य, विद्युत पारेषण और वितरण कार्य जैसी परियोजनाओं के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव भी है। वें वर्तमान में कंपनी के परियोजनाओं

आशीष तौमर के निष्पादन क्षेत्रों की देखरेख कर रहे हैं।

और अन्य प्रक्रिया उद्योगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी सीपीडब्ल्युडी, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा हेम बेसिस डब्ल्यूएसपी और डब्ल्यूएसएसपी और ईपीसी विकसित करने के लिए जारी निविदाओं के लिए बोली लगाती है।

ईएमएस ने 2010 से विभिन्न सरकारी निकायों और नगर पालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं और 50 से अधिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

कंपनी की सेवाएं सीवरेज और उनके संबद्ध कार्यों में डिजाइन, खरीद, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव शामिल है।

-नए सीवरेज नेटवर्क के साथ-साथ पुराने/मौजूदा सीवरेज नेटवर्क का नवीनीकरण।

- सीवेज उपचार संयंत्रों का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव। -सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव।

- डिजाइन, खरीद, बिछाने सहित जल आपूर्ति कार्य जॉइंटिंग, टेस्टिंग,

कमीशनिंग, नए जल आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ जलाशय का निर्माण और पुराने/मौजुदा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण।

-सड़क और संबद्ध कार्य जिसमें नए सड़क नेटवर्क का निर्माण और साथ ही मौजूदा सड़क नेटवर्क की मरम्मत/नवीकरण शामिल है।

बिजली पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का डिजाइन और

- इमारतों और संबद्ध कार्यों का



डिजाइन और निर्माण।

- सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं और उपयोगिताओं का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव।

- डिजाइनिंग. बिजली प्रसारण स्थापित

कंपनी का वित्तीय प्रदर्शनः वित्त वर्ष 2020 में कंपनी ने 325.64 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 72.39 करोड रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष २०२१ में ३३०.७० करोड़ रूपए का राजस्व एवं ७१.९५ करोड रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2022 में ३५९.८५ करोड़ रुपए का राजस्व एवं 79.04 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित वर्ष २०२३ की सितम्बर तिमाही में कंपनी द्वारा 186.32 करोड रुपए का राजस्व एवं ४१.४६ करोड़ रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्त

वर्ष 2023 की पहली छमाही में कंपनी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन 22.25 फीसदी दर्ज किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कंपनी

का वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी कैश रिच है और उस पर किसी प्रकार का कर्ज भी नहीं है। आईपीओ के संबंध में जानकारीः कंपनी का आईपीओ बीएसई लिमिटेड

और एनएसई लिमिटेड के मैनबोर्ड पर आएगा। कंपनी द्वारा १० रूपए फेसवेल्यु के फ्रेश इक्विट भेयर जारी कर 180 करोड रुपए जटाए जायेंगे। वहीं ऑफर फोर सेल के माध्यम से 82,94,118 शेयरों की बिक्री की जाएगी। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन नई दिल्ली आधारित प्रमुख बीआरएलएम कंपनी खंबाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

88% से अधिक भारतीय इक्विटी लार्ज-कैप फंडों ने 2022 में अपने बेंचमार्क से कमतर प्रदर्शन किया

एसएंडपी डाउ जोंस इंडेक्स ने SPIVA® इंडिया ईयर-एंड 2022 के नतीजे जारी किए

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। दुनिया के अग्रणी इंडेक्स प्रदाता, एसएंडपी डाउ जोन्स इंडेक्स ("S&P DJI") ने 2022 के लिए एसएंडपी इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड्स (SPIVA) इंडिया स्कोरकार्ड प्रकाशित किया। डाटा से पता चलता है कि भारतीय लार्ज-कैप का अधिकांश हिस्सा 2022 में एसएंडपी बीएसई 100 में 88% सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड के प्रदर्शन के साथ इक्विटी फंड बेंचमार्क को मात देने में विफल रहे। इसी अवधि में, भारतीय इक्विटी मिड-/स्मॉल-कैप फ़ंड के लिए बेंचमार्क, एसएंडपी बीएसई 400 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स, २% बढ़ा और 55% सक्रिय प्रबंधकों ने इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया, जबिक एसएंडपी बीएसई 200 में लगभग 6% की वृद्धि हुई और 77% भारतीय ईएलएसएस फंड्स ने इस इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया।

एक लंबे अंतराल में. स्कोरकार्ड ने सभी श्रेणियों के बीच, भारतीय इक्विटी

मिड-/स्मॉल-कैप फंडों ने दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली 10 साल की अवधि में एसएंडपी बीएसई 400 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स को पछाड़ते हुए उनमें से 50% के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 10-वर्ष की समय सीमा एसएंडपी बीएसई भारतीय इक्विटी मिड-/स्मॉल-कैप के बाहर सभी श्रेणियों में 60% से अधिक फंडों ने खराब प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के अनुसार, एसएंडपी

बीएसई इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में 2022 में लगभग 3% की वृद्धि हुई। दिलचस्प बात यह है कि एक तिहाई से भी कम सिक्रय प्रबंधकों ने 2022 में 68% की अंडरपरफॉर्मेंस दर के साथ बेंचमार्क को पीछे छोड दिया। एस एंड पी बीएसई इंडिया बॉन्ड में केवल अंडरपरफॉर्मिंग के साथ, भारतीय कम्पोजिट बॉन्ड फंड्स ने इसी अवधि में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

Fund Category	Comparison Index	1-Year (%)	3-Year (%)	5-Year (%)	10-Year (%)
Indian Equity Large-Cap	S&P BSE 100	87.50	96,67	93.75	67.91
Indian ELSS	S&P BSE 200	76,92	69.77	95.35	63.89
Indian Equity Mid- /Small-Cap	S&P BSE 400 Mid SmallCap Index	54.90	58.33	44.83	50.00
Indian Composite Bond	S&P BSE India Bond Index	45,39	71,33	95,77	98.17
Indian Government Bond	S&P BSE India Government Bond Index	68.00	70.83	71.05	82.98

एसएंडपी डॉव जोन्स इंडेक्स के डायरेक्टर, इंडेक्स इनवेस्टमेंट स्टैटेजी. बेनेडेक वोरोस ने कहा. 'भारतीय बाजारों ने 2022 में अधिकांश वैश्विक बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

हालांकि मुख्य इक्विटी और निश्चित आय बेंचमार्क सूचकांक एच1 में गिरे, उन्होंने वर्ष की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। एसएंडपी बीएसई 500 मिडस्मॉलकैप इंडेक्स के साथ एसएंडपी बीएसई 500 मिडस्मॉल कैप इंडेक्स में एसएंडपी बीएसई 200 से 4% कम प्रदर्शन के साथ कसने वाले ऋण मानकों का वजन 2019 के बाद से सबसे अधिक है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय ईएलएसएस फंडों ने हमारे एसपीवीए इंडिया स्कोरकार्ड में सभी श्रेणियों में दूसरी उच्चतम दीर्घकालिक उत्तरजीविता दर हासिल की है, जिनमें से 77.8% अभी भी 10 वर्षों के बाद भी जीवित हैं। इस बीच, 76.9% भारतीय ईएलएसएस फंड्स ने इंडेक्स को अंडरपरफॉर्म किया। 10 साल की अवधि में, कुछ फंडों में सुधार हुआ, जिनमें 63.9% ने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया।

एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने देश का पहला आरईआईटी और इनविट्स इंडेक्स लॉन्च किया

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। एनएसई की इंडेक्स सर्विसेज सहायक कंपनी एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) इंडेक्स-निफ्टी आरईआईटी और इनविद्स इंडेक्स लॉन्च किया। निफ्टी आरईआईटी और इनवीआईटी इंडेक्स का उद्देश्य आरईआईटी और इनविद्स के प्रदर्शन को टैक करना है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है और जिनका कारोबार किया जाता है (सुचीबद्ध और कारोबार में शामिल है या सूचीबद्ध नहीं है लेकिन ट्रेड करने की अनुमति है)। सूचकांक के भीतर प्रतिभूतियों का भार उनके फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर आधारित है, जो प्रत्येक ३३ प्रतिशत की सुरक्षा सीमा के अधीन है और शीर्ष 3 प्रतिभूतियों का कुल भार ७२ प्रतिशत पर सीमित है। निफ्टी आरईआईटी और इनविदस इंडेक्स की



आधार तिथि 01, जुलाई 2019 है, और १००० का आधार मूल्य है। सूचकांक की समीक्षा की जाएगी और तिमाही आधार पर इसका पूर्नसंतुलन किया जाएगा। एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) निवेश का एक ऐसा तरीका है जो राजस्व पैदा करने वाली रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति का मालिक है। आरईआईटी रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करते हैं जबिक इनिवद्स लंबी अविध की अविध वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। आरईआईटी और इनविद्स के माध्यम से निवेशकों को डायवर्सिफाइड रेगुलर इनकम जेनरेटिंग रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का एक्सपोजर मिलता है। एनएसई इंडिसेज के सीईओ

मुकेश अग्रवाल ने कहा, ''आरईआईटी और इनविदस को कैश जनरेट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के आधार पर धन ज़ुटाने के लिए मजबूत वैकल्पिक वित्तीय साधनों के रूप में मान्यता प्राप्त है। निवेशकों के लिए ये रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही, इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे नियमित परिसंपत्ति वर्गों से जोखिम का विविधीकरण करते हैं और नियमित आय उत्पन्न करते हैं। देश के पहले निफ्टी आरईआईटी और इनविद्स इंडेक्स की लॉन्चिंग दरअसल विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए बाजार प्रतिनिधि बेंचमार्क प्रदान करने के एनएसई के विजन के अनुरूप है। निफ्टी आरईआईटी और इनविट्स इंडेक्स सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध आरईआईटी और इनविद्स के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा और एक्टिव फंड्स के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।"

यूटीआई कोर इक्विटी फंड

बिजनेस रेमेडीज। यूटीआई कोर इक्विटी फंड एक लार्ज और मिड कैप फंड है जहां यह विविध निवेश पोर्टफोलियो प्रदान करता है। म्युचुअल फंड के सेबी वर्गीकरण के अनुसार, लार्ज और मिड कैप फंड, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों के इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में न्यूनतम 35% का निवेश करते हैं। फंड ऐसी अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहता है जो सस्ता ट्रेडिंग द्वारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करती हैं। फंड का उद्देश्य लार्ज कैप कंपनियों के प्रति पूर्वाग्रह के साथ स्थिरता प्रदान करना है और मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश के माध्यम से पोर्टफोलियो में उच्च वृद्धि की पेशकश करना है।

वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें ऐसे शेयरों को चुनना शामिल है जो अपने आंतरिक मूल्य से कम पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार अक्सर अल्पकालिक समाचार प्रवाह या भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं जो मूल्य निवेशक को अपने आंतरिक मूल्य



से नीचे स्टॉक खरीदने का अवसर देता है। आंतरिक मूल्य से नीचे खरीदना मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करता है, जो कि मूल्य निवेश की विशेषता है। कम वैल्यूएशन पर स्टॉक खरीदने से, मूल्य निवेशक पैसे कमाने या कम पैसे खोने का मौका पाटा है, अगर बिजनेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करता है या प्रदर्शन करने में अधिक समय लेता है।

मूल्य निवेशक मार्जिन ग्रोथ के बजाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते हैं और चक्रीयता को अपनाते हैं। मूल्य निवेशक तब पैसा बनाता है जब स्टॉक आंतरिक मूल्य पर व्यापार करता है। वह व्यापार के मूल सिद्धांतों और मूल्यांकन में सुधार की संभावना को कैप्चर करता है। फंड उन क्षेत्रों को चुनने के लिए टॉप डाउन विजन का पालन करता है जो उचित संभावनाओं के साथ औसत मूल्य से नीचे उपलब्ध हैं। यह उचित सापेक्ष मूल्यांकन के साथ अच्छे बिजनेस को चुनने के लिए नीचे से ऊपर के विजन का अनुसरण करता है, एक हेल्दी रिकॉर्ड और भविष्य के विकास की संभावना पर विचार किया जाता है। फंड का मूल विश्वास यह है कि एक कंपनी अपने स्वयं के मूल्यांकन चक्र से गुजरती है जो मैक्रो चक्र या कंपनी विशिष्ट कारकों के कारण भिन्न हो सकती है, और इसका उद्देश्य चक्र में अक्षमता को पकड़ना है। अगर वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है तो यह ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियों की ओर भी देखेगा।

मूल्यांकन बनाम इतिहास, उचित मूल्यांकन पर विकास के अवसर और औसत प्रत्यावर्तन। फंड ग्रुणवत्ता वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनका सापेक्ष मूल्यांकन उनके ऐतिहासिक मूल्यांकन या उनके साथियों के मूल्यांकन से कम है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रदान करता है। फंड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को भी देखता है जो उचित वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। इस संबंध में, स्माल कैप, ग्रोथ और मूल्य के संयोजन की पेशकश कर सकते हैं क्योंकि वे बाजार द्वारा अच्छी तरह से खोजे नहीं गए हैं और अच्छी गुणवता वाली कंपनियां उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हो सकती हैं। यह रणनीति उन व्यवसायों को चुनने का भी प्रयास करती है जो कम मूल्य वाले हैं और लाभप्रदता और मूल्यांकन में औसत उलटफेर से लाभान्वित होते हैं। यूटीआई कोर इक्विटी फंड को वर्ष २००९ में लॉन्च किया गया था। फंड का एयूएम 31 मार्च 2023

फंड की निवेश रणनीति तीन

रिद्धांतों पर बनाई गई है: सापेक्ष

तक 1.89 लाख यूनिट धारक खातों के साथ 1,527 करोड़ रूपये है। 31 मार्च, 2023 तक, फंड ने लगभग 47% लार्ज कैप में, 44% मिड कैप में और शेष स्मॉल कैप में निवेश किया है।

स्कीम की शीर्ष होत्डिंग में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड और लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड आदि शामिल है, जो पोर्टफोलियो होल्डिंग का 33% से अधिक है। यूटीआई कोर इक्विटी फंड उन निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो निवेश के सापेक्ष मूल्य शैली की ओर पूर्वाग्रह के साथ बड़े और मध्य बाजार पूंजीकरण शेयरों में निवेश के लिए जोखिम चाहते हैं। फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि के धन सृजन के लिए अपने मुख्य इक्विटी पोर्टफोलियो का निर्माण करना

चाहते हैं।

एसआरजी हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड

CIN NO: L65922RJ1999PLC015440

पंजीकृत कार्यालयः 321 एसएम लोढा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल कं पास, उदयपुर (राजस्थान) -313001 WEBSITE: www.sryhousing.com ई-मेल: info@sryhousing.com टेलीफोन: 0294-2561882, 2412609 पोस्टल बेलट की सुचना

एतद्धारा सुचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधन यदि कोई हो, के प्रावधनों के अनुसार कंपनी (प्रबंधनन और प्राशासन) नियम, 2014 अधिनियम) के नियम 22, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण भावश्यकताएँ विनियम) 2015 के विनियमन 44 के साथ किसी भी संशोधन या पुनः अधिनियम सहित, कॉर्पोरेंट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (इ -वोटिंग) के माध्यम से पोस्टल बैलट सुचना में उल्लेखित निम्न प्रस्तावों व लिए सदस्यों का अनुमोदन माँगा जा रहा है:-

अनु. सं. विवरण संकल्प का प्रकार एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कर्मचारी स्टॉक विकल्प विशेष योजना – 2023 का अनुमोदन।

एक शेयरधारक को 'प्रमोटर ग्रुप' से 'सार्वजनिक' श्रेणी में साधारण पुनर्वर्गीकृत करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सदस्यों को एतत्ह्वारा सुचित किया जाता है। कि MCA परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने April 11, 2023 को कंपनी व

सभी सदस्यों जिनका नाम कट ऑफ तारीख April 7, 2023 को कंपनी द्वारा बनाये गए रजिस्टर ⁄डंपोसिटेर द्वार नायं गए सदस्यों लाभार्थी मालिकों की सूचि में है और जिन्होंने अपने संबंधित डेपोसिटरी प्रतिभागियों के मार से डंपोसिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के सर्बंधें में अपने इ मेल पंजीकृत किये गए है उन सभी क नहीं है उसे तदनुसार पोस्टल बैलेट सुचना को केवल सुचना के उद्देश्य के रूप में मानना चाहिए ।

किया गया है । इसे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी देखा जा सकता है । सूचना इ वोटिं

एजेंसी के बेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं । सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और कंपनी अधिनयम,2013 की धारा 108 के अनुपालन में कंपनी (प्रबंधनन और प्राशासन)नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पटित जैसा की संशोधित है और MCA परिपत्र कं . अनुपालन में, कंपनी मतदान के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट इ वॉटिंग के माध्यम सं अपने सदस्यों क इस पोस्टल वैलेट सुचना में निर्धारित संकल्प के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोट डालने में सक्षम बनाता है इस उद्देश्य के लिए कंपनी के नेशनल सिक्योरिटीज डेपोसिटरी लिमिटेड की सेवाएं ली है, और इ वॉटिंग व सुविधा के लिए अपने RTA के साथ आवश्यक व्यवस्था भी की है। MCA परिपत्रों के अनुसार वोटिंग केवल :

इ-बोटिंग बुधवार 12 अप्रैल 2023 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और गुरुवार 11 मई 2023 शाम 5 बजे तक बंद

पोस्टल बैलेट सुचना के तहत संकल्प यदि सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है तो कंपनी 'ड वोटिंग के लिए 11 म 2023 को पारित माना जाएगा (इसके अलावा, सदस्यो द्वारा इ वोटिंग के माध्यम से पारित संकल्पो को आम सभ

कंपनी के निदेशक मंडल ने March 29, 2023 को शिवहरि जालान प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को इ वॉटिं पक्रिया को कानून के अनुसार और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीक से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया। पोस्टल बैलंट के परिणाम मई 12, 2023 को या उसे पहले बांधित किया जाएगा।पोस्टल बैलंट के परिणाम स्क्रूटिनाईज़र की रिपोर्ट के साथ कंपनी को वेबसाइट www.srghousing.com पर पोस्ट किये जायें और BSE लिपिटेंड www.bseindia.com को भी सुचित किया जाएगा i

रेमोट इ-बांटिंग से संभाधित सुचना के लिए कृपया पोस्टल बैलेट की सुचना देखे। यदि मदस्यों के पास कोई प्र ्रिशकायत है या रिमांट इ वॉटिंग ये किसी सहायता की आवश्यकता है, तो www.evoting.nssl.com व डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शंबरधारकों के लिए अक्सर पूछे आने वाले प्रशन और इ वॉटिंग उपयोगकत

न्य किसी भी जानकारी के लिए सम्पर्क करें (एनएसडीएल) 91-22-24994890ए टॉल फ्री 1800-222-990 या ईमेल evoting@nsdl.co.in या दिव्या कांठारी कम्पनी सचिव 0294-2561882 ईमेर info@srghousing.com पता 321 एसएम लोढ़ा कॉम्पलेक्स, शास्त्रीसर्कल के पास, उदयपुर (राजस्थान -313001 पर सम्पर्क का सकते हैं। एसआरजी हाउतिंग काईनेना के लिए

दिनांक : 12.04.2023

दित्या कोठारी कम्पनी सविव (एसीएस ५७३००)